

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 231]

No.47]

DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

[N.C.T.D. No. 231]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सं.एफ. 3(29)/वित्त/(राजस्व-1)/2015-16/डीएस-VI/93.— जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल का विचार है कि ऐसा करना आम जनता के हित में आवश्यक है।

अतः दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 16 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्न तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट डीलरों के संवर्ग के सामने कॉलम (3) में उल्लिखित शर्तों तथा इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सामान्य शर्तों के तहत और नामित उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखितानुसार उक्त डीलरों द्वारा देय कर की समझौता योजना उपलब्ध है, अर्थात्:-

तालिका

डीलरों की पात्रता श्रेणी एवं संवर्ग	प्रश्न राशि	शर्तें
1.	2.	3.
प्रत्येक पंजीकृत डीलर जिसका चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्ष का अनुमानित टर्न ओवर पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो तैयार खाद्य पदार्थों के अलावा कोई अन्य बिक्री नहीं करता है और पका खाना, स्नैकस, मिठाई, सेवरीज, जूस, एयरटेड ड्रिंक, चाय तथा कॉफी इत्यादि सहित नॉन एल्कोहलिक बीवरेज की बिक्री नहीं करता है और इनको होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट स्टॉल, स्वीट शॉप, क्लब, कैटरिंग तथा अन्य इटिंग हाउस द्वारा सर्व या	संपूर्ण कुल बिक्री का पांच प्रतिशत	(1) डीलर को— (क) खरीद या गुड्स प्रापण हेतु या बिक्री हेतु या दिल्ली के बाहर किसी भी जगह पर सप्लाय करने का पात्र नहीं है; (ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित गुड्स के मामले को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से खरीद का पात्र नहीं है जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है; (ग) इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट दावा का पात्र नहीं है; (घ) अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपने सकल कर की गणना नहीं कर सकता है;

डीलरों की पात्रता श्रेणी एवं संवर्ग	प्रश्मन राशि	शर्तें
1.	2.	3.
<p>इनडोर या आउटडोर कैटरिंग करता है:</p> <p>बशर्ते कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान टर्न ओवर की शर्तें ऐसे डीलर पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपना व्यवसाय चालू वर्ष के दौरान प्रारंभ किया है।</p>		<p>(ड) "कर बीजक" जारी करने का पात्र नहीं है; और</p> <p>(च) अपनी सभी खरीद के लिए सभी कर बीजक तथा सभी रिटेल बीजक की मूल प्रतियां तथा उसके द्वारा की गई बिक्री के संबंध में उसे जारी सभी रिटेल बीजकों की प्रतियां रखनी होंगी जोकि अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>(2) ऐसा डीलर जो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा है वो वर्ष के प्रथम दिन से तीस दिनों की अवधि के अंदर इस अधिसूचना के साथ संलग्न फार्म आरएच 01 में आवेदन कर इस योजना के अंतर्गत कर के तब से भुगतान का विकल्प दे सकता है जबसे प्रश्मन का विकल्प दिया हो।</p> <p>(3) जो डीलर नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है वो भी फार्म डीवीएटी 04 में अपने पंजीकरण आवेदन के साथ इस अधिसूचना के साथ संलग्न फार्म आरएच 01 में आवेदन कर इस योजना के लिए भी विकल्प दे सकता है।</p> <p>(4) जो डीलर इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प देता है तो इस योजना के लिए अपने विकल्प से प्रथम दिन पर उसके द्वारा रखे ओपनिंग स्टॉक के मूल्य पर अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट दर पर कर दिया जाएगा और फार्म आरएच 01 में अपने आवेदन के साथ फार्म डीवीएटी 20 में देय कर के भुगतान के साक्ष्य के साथ इस अधिसूचना के साथ संलग्न फार्म आर उच 02 में ऐसे ओपनिंग स्टॉक के विवरण प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(5) इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का डीलर द्वारा विकल्प दिए जाने के बाद, क्र० सं० (6) पर उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत को छोड़कर वर्ष के अंत से पूर्व अपना विकल्प वापस लेने का पात्र नहीं है जिसके लिए उसने इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है।</p> <p>(6) एक डीलर जिसने किसी वर्ष विशेष के लिए इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है, और आने वाले वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान हेतु विकल्प देने का इच्छुक नहीं है, अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के अनुसार जैसाकि लागू है और वर्ष की समाप्ति पर तीस दिनों के अंदर फार्म आरएच 03 में इस योजना से निकासी के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में जिसके लिए इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है, वो आने वाले वर्ष के प्रथम दिन पर उसके द्वारा रखे ओपनिंग स्टॉक पर कर भुगतान के क्रेडिट दावा का पात्र होगा।</p>

सामान्य भाते :- (1) अधिनियम के सभी प्रावधानों तथा इसके तहत बने नियम जो इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, उन सभी डीलरों पर लागू होगा जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है।

(2) डीलरों की कर अवधि जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है जो तिमाही होगी बशर्ते अन्यथा डीलर या वर्ग विशेष के डीलरों के लिए आयुक्त द्वारा निर्धारित हो।

(3) द्वितीय परंतुक अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अनुसार जिस डीलर ने धारा 16 की उप-धारा (1) से (11) के अनुसार प्रश्मन् योजना के लिए पहले से विकल्प दिया है और जो उपरोक्त तालिका के कॉलम 01 में उल्लिखित डीलरों के संवर्ग के अंतर्गत कवर हैं वे 30 अप्रैल, 2016 तक फार्म डीवीएटी 03 में आवेदन द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से इस प्रश्मन् योजना से आवश्यक रूप से निकासी कर सकते हैं। यद्यपि ऐसे डीलर उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रश्मन् के अंतर्गत के लिए विकल्प दे सकते हैं।

(4) इस अधिसूचना में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयुक्त विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अधिसूचित कर सकता है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न कोई भी या सभी फार्म ऑन लाइन भरे जाएंगे।

(5) इस योजना के अंतर्गत डीलर द्वारा दिया गया कर अधिनियम की धारा 03 के अंतर्गत डीलर द्वारा देय कर के दायित्व के विरुद्ध किसी भी अवधि के लिए किसी भी स्तर पर समायोजित नहीं होगा जिसके लिए डीलर इस योजना के अंतर्गत कर देने के लिए पात्र है।

(6) डीलर जिसने इस योजना के तहत कर भुगतान का विकल्प दिया है और विकल्प दिए गए वर्ष के दौरान किसी भी समय डीलर का टर्न ओवर पचास लाख रुपये से ज्यादा होता है, तो उसे पचास लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर की तिथि से अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा। अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के तहत लागू तथा टर्न ओवर पचास लाख रुपये से अधिक होने की तिथि से सात दिनों के अंदर फार्म आर एच 03 में सूचना प्रस्तुत करनी होगी, और वह उस दिन से दिल्ली में उसके द्वारा रखे ओपनिंग स्टॉक पर इनपुट कर भुगतान के क्रेडिट दावा का पात्र होगा।

(7) डीलर जिसने इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है और निर्धारित देय तिथियाँ तक लगातार दो कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहा है और असफल रही अवधि के संबंध में कर अवधि के प्रथम दिन से बाद की अवधि के कर के संबंध में—

(i) इस योजना के अंतर्गत भुगतान किए गए कर को जब्त करना;

(ii) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत देय कर का दायित्व।

ऐसा डीलर अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के तहत तथा बाद के कर अवधि के लिए रिटर्न फाइलिंग के लिए निर्धारित देय तिथि की समाप्ति के बाद सात दिनों के अंदर आरएच 03 फार्म में सूचना प्रस्तुत करने के अलावा जिसके लिए चूक हुई है इस अधिनियम के अन्तर्गत चूक के संबंध में बाद के कर अवधि के तुरंत बाद कर अवधि के प्रथम दिन पर दिल्ली में उसके द्वारा रखे ओपनिंग स्टॉक पर भुगतान किए गए कर के क्रेडिट दावा का पात्र है।

(8) यदि डीलर ने इस योजना के लिए विकल्प दिया है परन्तु विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने में असफल है या किसी स्तर पर वह इस योजना के विकल्प हेतु पात्र नहीं पाया जाता है और ब्याज सहित धारा 3 के अंतर्गत देय करके दायित्व सहित अधिनियम के सभी प्रावधानों के अनुसार विलंब करता है तो यह माना जाएगा कि डीलर ने कभी भी इस योजना के तहत विकल्प नहीं दिया था।

यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2016 से लागू होगी।

व्यापार एवं कर विभाग,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रपत्र आरएच- 01

[नियम 16 (12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखें]

धारा 16 की उप-धारा 12 के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथाधिसूचित योजना के अन्तर्गत रेस्तारा एवं हलवाई मदों की बिक्री में पात्र डीलरों द्वारा समाधान अपनाने के लिये आवेदन पत्र

वार्ड संख्या:

[illegible][illegible][illegible]

4. जिस वर्ष से समाधान योजना लागू करने की मांग की गई है। *

* इसके पश्चात् "चालू वर्ष" के रूप में संदर्भित

5. पूर्ववर्ती वर्ष में कुल बिक्री (रु०)

6. चालू वर्ष में अनुमानित कुल बिक्री (रु०)

7. जिस तिथि को योजना चुनी जा रही है उसके प्रथम दिन को धारित आदि स्टॉक पर देय कर

आरम्भिक स्टॉक का उचित बाजार मूल्य या खारीद मूल्य (जो अधिक हो) (रु.)	देय कर (रु.)

8. उक्त 7 के अनुसार भुगतान किये गये कर का विवरण

विवरण	विवरण
(i) भुगतान किए गए कर की राशि (रुपये)	
(ii) जमा करने की तिथि	दिन / महीना वर्ष
(iii) चालान संख्या, यदि कोई है	

(* कृपया जमा राशि का मूल चालान/सबूत संलग्न कीजिए)

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

9. सत्यापन

मैं/हम- _____ इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर _____

पूरा नाम _____

(प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम) _____

पदनाम _____

स्थान

दिनांक

दिन

माह

वर्ष

व्यापार एवं कर विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
प्रपत्र आरएच 02

[धारा 16(12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिए]
समझौता योजना अपनाने के वर्ष के प्रथम दिन को धारित आरंभिक स्टॉक का विवरण

1. टिन	
2. व्यापार का पूरा नाम	
3. समझौता योजना लागू होने से प्रथम दिन पर स्टॉक का कल मूल्य	
4. स्टॉक खरीद का विवरण (तालिका के अनुसार)	

तालिका

क्र० सं०	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	खरीद मूल्य	कर की दर	देय कर

* उक्त तालिका तैयार की जाए तथा मांग के अनुसार प्रपत्र के साथ संलग्न कीजिए।

विवरण संबंधी प्रमाण पत्र

मैं/हम ————— इसके द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त स्टॉक का विवरण सूचना मेरी/हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त विवरण मेरे/हमारे पास उपलब्ध दस्तावेजों का सही रूप है जिसे हम मांगने पर मूल्य संवर्धित कर विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

डीलर के हस्ताक्षर —————

नाम
पता :

दिनांक:

स्थान:

1375 DG/16-2

व्यापार एवं कर विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रपत्र आरएच 03

[धारा 16(12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिए]

धारा 16 की उप-धारा (12) के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समझौता योजना के संबंध में रेस्तरां और हलवाई मदों की बिक्री में लगे डीलरों द्वारा अस्वीकरण संबंधी आवेदन पत्र

वार्ड संख्या

--

1. टिन									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. आवेदक व्यापारी का पूरा नाम																			

3. व्यापारी का पूरा पता																			

4. जिस वर्ष से समझौता योजना अस्वीकरण करने की मांग की गई है।									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* इसके पश्चात् "चालू वर्ष" के रूप में संदर्भित

5. पूर्ववर्ती वर्ष में कुल बिक्री									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. समझौता योजना अस्वीकरण करने के कारण	

7. ओपनिंग स्टॉक का विवरण जिस पर इनपुट कर क्रेडिट चाहिए

क्र०सं०	कर इन्वाइस तिथि	कर इन्वाइस संख्या	अधिनियम के अधीन आपूर्तिकर्ता की टिन संख्या	बिक्री न किये गये स्टॉक का खरीद मूल्य (रु०)	कर की दर (%)	इनपुट कर (रु०)
			कुल			

8. सत्यापन

म/हम— इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर —————

पूरा नाम —————

(प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम)_____																			
पदनाम_____																			
नाम,																			
दिनांक																			

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम से,
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th March, 2016

No.F.3(29)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/ 93. Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 16 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), (hereinafter referred to as "the Act"), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, subject to the conditions specified in column (3) against the classes of dealers specified in column (1) of the Table below, and other general conditions as prescribed in this notification, hereby, provides for the scheme of composition of tax payable by the said dealers as specified in column (2) of the said Table, namely :-

TABLE

Eligible class or classes of dealers	Composition Amount	Conditions
1	2	3
Every registered dealer whose turnover during the preceding year as well as the expected turnover during the current year does not exceed fifty lakh rupees and who is not making any sales other than that of ready to eat foods and non-alcoholic beverages including cooked food, snacks, sweets, savouries, juices, aerated drinks, tea and coffee etc. served in or catered indoors or outdoors by hotels, restaurants, sweet-stalls, sweet shops, clubs, caterers and any other eating houses: Provided that the condition of turnover during preceding year shall not apply to a dealer who commences his business during the current year.	Five percent of the entire turnover	(1) The dealer shall, - (a) not be eligible for making purchases from or procuring goods from or making sales to or making supplies to any place outside Delhi; (b) not be eligible for making purchases from a person who is not registered under the Act except in the case of goods specified in the First Schedule; (c) not be eligible to claim tax credit under section 9 of the Act; (d) not calculate his net tax under section 11 of the Act; (e) not collect any amount by way of tax under the Act; (f) not be entitled to issue 'Tax Invoices'; and (g) continue to retain the original copies of all tax invoices and all retail invoices for all his purchases and copies of all retail invoices issued by him in respect of his sales as required under section 48 of the Act. (2) A dealer who is paying tax under section 3 of the Act, can opt for payment of tax under this scheme by filing an application in Form RH 01 appended to this notification within a

Eligible class or classes of dealers	Composition Amount	Conditions
1	2	3
		<p>period of thirty days from the first day of the year with effect from which composition is opted.</p> <p>(3) A dealer applying for a fresh registration can also opt for this scheme by filing application in Form RH 01 appended to this notification alongwith his registration application in Form DVAT 04.</p> <p>(4) A dealer opting to pay tax under this scheme shall pay tax, at the rates specified in section 4 of the Act, on the value of the opening stock held by him on the first day from which he opts for this scheme and shall furnish the details of such opening stock in Form RH 02 appended to this notification along with proof of payment of due tax in Form DVAT 20, with his application in Form RH 01.</p> <p>(5) Once a dealer has opted to pay tax under this scheme, he shall, except under the circumstances described at Sl. No. (6) below, not be eligible to withdraw his option before the end of the year for which opted to pay tax under this scheme.</p> <p>(6) A dealer who, having opted to pay tax under this scheme for a particular year, does not intend to opt for payment of tax under this scheme for the following year, shall, subject to the conditions contained in section 20 of the Act in so far as they are applicable and further subject to furnishing of intimation regarding withdrawal from this scheme in form RH 03 within thirty days from the end of the year for which opted to pay tax under this scheme, be eligible to claim credit of tax paid on the opening stock held by him on the first day of said following year.</p>

General conditions : (1) All the provisions of the Act and the rules made thereunder which are not contrary to this scheme shall apply to every dealer opting to pay tax under the scheme.

(2) The tax period for the dealers opting to pay tax under this scheme shall be a quarter unless otherwise prescribed by the Commissioner for a dealer or class of dealers.

(3) In view of the second proviso to sub-section (1) of section 16 of the Act a dealer who has already opted for composition scheme as per sub-sections (1) to (11) of section 16 and who is covered under the class of dealers described in coloumn 1 of the above table, shall mandatorily withdraw from the composition scheme with effect from 1st April, 2016 by filing application in Form DVAT 03 upto 30th April, 2016. However, such dealers can opt for composition under this scheme as per the procedure explained above.

(4) Notwithstanding anything contained in this notification, the Commissioner may notify, by a special or general order, that any or all of the forms appended to this notification shall be filed online.

(5) Tax paid by a dealer under this scheme shall not be adjusted at any stage against the liability of the dealer to pay tax under section 3 of the Act for any period other than the period for which the dealer was eligible for paying tax under this scheme.

(6) If the turnover of a dealer who opted to pay tax under this scheme exceeds fifty lakh rupees at any time during the year for which so opted, he shall be liable to pay tax under section 3 of the Act on and from the date his turnover exceeds fifty lakh rupees and he shall, subject to the conditions contained in section 20 of the Act in so far as they applicable and further subject to furnishing the intimation in Form **RH 03** within seven days from the date on which turnover exceeded fifty lakh rupees, be entitled to claim credit of the input tax paid on opening stock held by him in Delhi on such day.

(i) Amount of tax paid* (Rs.)																				
(ii) Date of Deposit				/			/													
			dd				mm										yyyy			
(iii) Challan No. if any																				

(* Please attach original challan / proof of deposit)

Name and signature of applicant / authorized signatory

9. Verification

I/We _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory _____

Full Name (first name, middle, surname) _____

Designation _____

Place																				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date								
	Day		Month		Year			

Department of Trade and Taxes

Government of NCT of Delhi

FORM RH02

[See notification under section 16(12)]

Statement of opening stock held on the first day of the year from which composition is to be opted

1. TIN	
2. Full Name of Business	
3. Total Value of the Stock as on first day with effect from which composition scheme	
4. Details of Stock purchases (as per Table	

Table

S.No.	Description of goods	Quantity	Purchase Value	Rate of tax	Tax payable

* The above table can be prepared and attached with the form as per the requirement

Certification of Details

I/We _____ hereby certify that all the above-mentioned stock details are true and correct to the best of my/our knowledge. Further certified that the particulars indicated above are the correct version of the documents, which are in my/our possession and can be produced before the Value Added Tax Department on demand.

Signature of the dealer

Name: Address:

Date: Place:

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सं.फा.5(54)/नीति/वैट/2013/पी.एफ./1721-31.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या सं.फा. 5(54)/नीति/वैट/2013/पी.एफ./1123-1135 दिनांक 26/12/2013 के आंशिक संशोधन में, दिल्ली मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2004 की छठी अनुसूची में, प्रविष्ट संख्या-1 के भाग-क-दूतावासों की सूची में, क्रम संख्या ए-141, वियतनाम (पंजीकरण संख्या/टिन-07509892160) के सामने निम्नलिखित शर्तों को डाला जाता है:-

(क) वैट रिफंड की सुविधा इन वस्तुओं की खरीद पर दूतावास को उपलब्ध होगी, यानी:-

- कार्यालय परिसर और दूतावास निवास के टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, पानी और गैस बिल और अन्य टेलीफोन बिल जो दूतावास के नाम पर है ।
- कार्यालय उपयोग के लिये स्टेशनरी, कार्यालय उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलिविजन, एयर कंडीशनर आदि ।
- कार्यालय गाड़ियां और राजनयिक अधिकारियों के स्वामित्व वाली वाहनों द्वारा इस्तेमाल ईंधन / पेट्रोल ।

(ख) वैट रिफंड की सुविधा इन वस्तुओं की खरीद पर राजनयिक अधिकारियों को उपलब्ध होगी यानी:-

- ऑटो मोबाइल — एक न.
- मोटरसाइकिल — एक न.
- टेलिविजन — दो न.
- वॉशिंग मशीन — एक न.
- एयर कंडीशनर — दो न.
- निजी कम्प्यूटर — एक न.
- ओवन और माइक्रोवेव — प्रत्येक (एक वस्तु के लिये)

गैर-राजनयिक अधिकारी अपने आगमन के छह महीने के भीतर जो वस्तुएं उपरोक्त अनुच्छेद (ग) में सूचीबद्ध हैं, उसकी खरीद कर सकते हैं ।

अधिसूचना की अन्य विषय वस्तु यथावत रहेगी ।

यह अधिसूचना दिनांक 30/12/2015 से प्रभावी होगी ।

एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
NOTIFICATION

Delhi, the 18th March, 2016

No.F.5(54)/Policy/VAT/2013/PF/1721-31.—In partial modification of this department's Notification No.F.5(54)/Policy/VAT/ 2013/PF/ 1123-1135 dated 26/12/2013, the following conditions may be inserted against Sl.No.A-141, Vietnam (Registration No./TIN. 07509892160) in Part A- List of Embassies of Entry No. 1 of Sixth Schedule appended with the Delhi Value Added Tax Act, 2004:-

(A)The facility of VAT refund shall be available to the Embassy on purchase of items viz:-

- Telephone, Internet, Electricity, Water and Gas Bills of Chancery Premises and Embassy Residence and other telephone bills which are in the name of Embassy.
- Office Stationery, Office equipment, electronic items like Refrigerator, Television, Air Conditioner etc. for official use.
- Fuel/petrol used by office cars and vehicles owned by diplomatic officers.

(B) The facility of VAT refund shall be available to the Diplomatic Officers on purchase of items viz.:-

- i. Automobile – one no.
- ii. Motorcycle – one no.
- iii. Television – two nos.
- iv. Washing machine – one no.
- v. Air conditioners – two nos.
- vi. Personal computer – one no.
- vii. Oven and microwave – one each

(C) Non-diplomatic officers can purchase the items listed at para (B) above, within six months of their arrival.

Rest of the contents of the above said notification shall remain unchanged.

This notification shall come into force w.e.f. 30.12.2015.

S.S.YADAV, Commissioner, Value Added Tax